

	कार्यालय: प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, मुन्द्रा, सीमा शुल्क भवन, मुन्द्रा बंदरगाह, कच्छ, गुजरात- 370421 <i>Office of the Principal Commissioner of Customs: Custom</i> <i>House, Mundra Port, Kutch, Gujarat- 370421.</i> E-mail: commr-cusmundra@nic.in	
---	---	---

Date:03.10.2025

केंद्रीयकृत आदेश संख्या/ Centralized Order No.: (DGHRD/AC-DC/296 /2025)स्थापना आदेश सं./ Establishment Order No.: 19/2025 dated: 03.10.2025

विषय: सीमा शुल्क सदन, मुन्द्रा के उप/ सहायक आयुक्त के ग्रेड में नियुक्ति एवं कार्य आवंटन के संबंध में

Sub: Work Allocation in the grade of DC/AC of Custom House, Mundra-reg.

सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुन्द्रा में तैनात उप/सहायक आयुक्तों के ग्रेड में निम्नलिखित कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक आदेशित किया जाता है:

The following work allocation in the grade of Deputy/ Assistant Commissioners posted to Customs Commissionerate, Mundra, are hereby ordered with immediate effect until further orders:

Sr. No.	Name of the Officer (Mr/Ms.)	Desig.	Emp. Code	Existing Charge	Work allocated
1	Vikramaditya Meena	DC	8543	SIIB, LRM, IPR.	SIIB, LRM, IPR, Land & Building
2	Ajay Rumal Kharde	DC	8571	Docks Examination I & CSD, Disposal	Docks Examination I & CSD, Disposal
3	Lal Das	DC	9335	Export Assessment- II with additional Charge of Docks Examination II.	Export Assessment II, UB, Legal, Review, Prosecution
4	Ajoy Kumar	AC	9139	Appraising General (AG), CFS Policy, SEZ Policy, CBLR, FAG, TSK, MCD & EODC.	Appraising General (AG), CFS Policy, SEZ Policy, CBLR, FAG, TSK, MCD & EODC
5	Modh Prakashchandra Babulal	AC	11067	Import Assessment Group IV & V, Refund, IGST Refund.	Import Assessment Group IV & V, Refund, IGST Refund
6	Viramgama Pareshkumar Veljibhai	AC	10698	DP, R&I, Bond & BG, Transshipment, Import Assessment VI.	DP, R&I, Bond & BG, Transshipment, Import Assessment Group VI
7	Vinay Kumar	AC	9499	APSEZ Mundra	PCA, CRA Audit, TRC, RTI, Adjudication & Settlement

	Hatoj				Commission, Central Registry
8	Bandaru Balu Mahendra	DC	8487	Import Assessment Group I, II, EDI, Alternate System Manager, e-Office, CPGRAM	Docks Examination II, CPGRAM, EDI, Alternate System Manager, e-Office
9	Sargiya Virendra Kumar	AC	11112	PCA, CRA Audit, UB, TRC Adjudication & Settlement Commission, Central Registry.	P&V, Sevottam, Import Assessment Group I, II, III
10	Munish Rohatgi	AC	11071	Export Assessment-I, EPC, Drawback & BRC, CIU, Data Analytics Cell.	Export Assessment-I, EPC, Drawback & BRC, CIU, Data Analytics Cell
11	Mehta Krishnakant	AC	11343	Import Assessment Group III, Legal, Review, Prosecution, RTI & Sevottam, P&V, Land & Building	APSEZ Mundra

अधिकारी द्वारा कार्यभार उचित ढंग से सौंपा/ग्रहण किया जाना चाहिए। निवर्तमान अधिकारी को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों/फाइलों को उत्तराधिकारी के लिए नोट करना होगा, जिसकी एक प्रति पर्यवेक्षी अपर आयुक्त को भी देनी होगी

There should be proper handing/ taking over by the officer. The outgoing officer shall note of all important issue/ files for the successor, with a copy for the supervisory Additional Commissioner.

यह आयुक्त, सीमा शुल्क भवन, मुंद्रा के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This is issued with the approval of the Commissioner, Customs House, Mundra.

(Dipak Zhala)
Additional Commissioner (P & V)
Custom House, Mundra

Copy to:

1. The Additional Commissioner (CCO), Customs Ahmedabad Zone.
2. The Additional Commissioner (CCO), CGST Vadodara Zone.
3. P.A. to the Commissioner, Customs Mundra
4. All Additional Commissioner, Customs Mundra.
5. All Deputy/ Assistant Commissioner, Customs Mundra.

6. The EDI Section.
7. Individual.
8. Guard File.